



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2009/माघ 7, 1930

No. 188]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2009/MAGHA 7, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

विशाखापटनम, 16 अक्टूबर, 2008

सं. 1/2008-सीमाशुल्क (गै.टै.) (विशाखापटनम)

का.आ. 339(अ).—केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने आयातित माल उतारने तथा निर्यात हेतु माल लदाई अथवा ऐसे किसी भी वर्ग के माल के लिए अधिसूचना संख्या 85/2007-सी.शु. (गै.टै.), दिनांक 21-8-2008 के द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अन्तर्गत गंगवरम पत्तन को सीमाशुल्क पत्तन के रूप में अधिसूचित किया है तथा आगे केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या 15/2002-सी.शु. (गै.टै.), दिनांक 7-3-2002 यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 108/2008-सी.शु. (गै.टै.), दिनांक 23-9-2008 में गंगवरम पत्तन को सीमाशुल्क आयुक्त के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है। अतः, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 8(अ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. पोन्नस्वामी, सीमाशुल्क आयुक्त, विशाखापटनम, मैसर्स गंगवरम पोर्ट लिमिटेड के अनुरोध पत्र सं. जीपीएलएस/सीओएम-सीयूएस/001, दिनांक 25-8-2008 के अनुसार गंगवरम पत्तन को नीचे दिये गये सूची के अनुसार आयातित माल उतारने तथा निर्यात हेतु माल लदाई अथवा ऐसे किसी भी वर्ग के माल के लिए, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों एवं भारत सरकार की तरफ से आयुक्त, सीमाशुल्क, विशाखापटनम द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों के कड़ाई से पालन करने के शर्त पर सीमाशुल्क क्षेत्र के रूप में अनुमोदित करता हूँ।


आगे, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 8(अ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीचे दिये गये अनुसूची के अनुसार ऊपर दिये गये सीमाशुल्क का क्षेत्र, सीमा एवं परिसीमा निर्दिष्ट करता हूँ।

अनुसूची

क्र. सं.	पत्तन का नाम	क्षेत्र एवं सीमा	परिसीमा
1.	गंगवरम पत्तन	338.14 एकड़ (निर्देशांक सीमाशुल्क परिसीमन/नौबन्ध स्थल परिशिष्ट में संलग्न रेखाचित्र के अनुसार)	पूर्व : समुद्र (बंगाल की खाड़ी) पश्चिम : खाली स्थल बीसी सड़क की तरफ दक्षिण : वैजाग इस्पात संयंत्र का क्षेत्र उत्तर : सड़क एवं गंगवरम गाँव की तरफ खाली स्थल।

[फा. सं. एस-10/13/2007-निवा.]

एम. पोन्नस्वामी, आयुक्त, सीमाशुल्क






1. सारी गहराइयां मीटर में
2. सारे परिमाण मीटर में
3. सारे दिशानिर्देशांक मीटर में

ग्राहक

गंगावरम पत्तन मर्यादित

परियोजना

गंगाधरम पत्तन का विकास

उद्देश		सु विषय		
क्षेत्रफल	338.14 हेक्टर			
नाप	1:6000	रीस्क		
विषय		सीमाशुल्क अधिकृत क्षेत्र		
ईसा सुचन				
प्रांत	महाराष्ट्र			
अनुमोदन	महाराष्ट्र	देखावट संख्या		

सूचक पत्र :

यह रेखाचित्र प्रकाशित नहीं किया गया है
और वह सिर्फ जी पी एल की ही संपत्ति है एवम्
इसके सारे अधिकार जीपीएल के पास सुरक्षित है

POK
SANGAYARH

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS)

NOTIFICATION

Visakhapatnam, the 16th October, 2008

No. 1/2008-CUSTOMS (NT) (VSP)

S.O. 339(E).—Whereas, Gangavaram port has been notified as Customs Port by the Central Board of Excise and Customs under Section 7 of the Customs Act, 1962, *vide* Notification No. 85/2007 (N.T.)-Customs, dated 21-8-2007 for the purposes of unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods and further, Central Board of Excise and Customs, New Delhi, *vide* Notification No. 15/2002-Customs (N.T.), dated 7-3-2002 as amended by Notification No. 108/2008-Customs (N.T.), dated 23-9-2008 issued under Section 4(1) of the Customs Act, 1962, included the area of Port of Gangavaram with the jurisdiction of the Commissioner of Customs, Visakhapatnam. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 8(a) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I, M. Ponnuswamy, the Commissioner of Customs, Visakhapatnam, on request of M/s. Gangavaram Port Limited, *vide* their letter No. GPLS/COM-CUS/001, dated 25-8-2008, hereby approve Gangavaram Port detailed in the Schedule below to be Customs Area for the purpose of unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods, subject to strict observance of relevant provisions of the Customs Act, 1962 and other instructions issued in this behalf by Government of India or Commissioner of Customs, Visakhapatnam, from time to time.

Further, in exercise of the powers conferred under sub-section (b) of Section 8 of the Customs Act, 1962, I, also specify the area, boundaries and limits of the above stated Customs Area as given in the Schedule below.


SCHEDULE

Sl. No.	Name of Port	Area/Boundaries	Limits
1	Gangavaram Port	338.14 Acres (Coordinates of Custom Boundary/Berths as per annexure/ drawing enclosed)	EAST: Sea (Bay of Bengal) WEST : Vacant land towards BC Road SOUTH : Vizag Steel Plant Area NORTH : Road and vacant land towards Gangavaram Village.

[F. No. S-10/13/2007-Prev.]

M. PONNUSWAMY, Commissioner of Customs

- 5 -




GPL CUSTOM BOUND AREA

WALL 3.5 M HEIGHT

3138 M

CHAIN LINK FENCE
3.5 M HEIGHT

2470 M



NOTES:

- 1 ALL DEPTHS ARE IN METRES AND ARE WITH RESPECT TO CHART DATUM.
- 2 ALL DIMENSIONS ARE IN METRES.
- 3 ALL COORDINATES ARE GIVEN IN METRES RELATING TO UTM: ZONE 44 PROJECTION, SPHEROID EVEREST 1830, CENTRAL MERIDIAN 81° E; ST (INDIA - BANGLADESH DATUM).

CLIENT

GANGAVARAM PORT LIMITED

PROJECT

DEVELOPMENT OF PORT
FACILITIES AT GANGAVARAM

PURPOSE

AREA

3.38.14 ACRES

ISSUED

SCALE

1:6000

DRAWN

PREPARED

CHECKED

APPROVED

TITLE:-

CUSTOM BOUND AREA

DRG. NO.

Rev. For GANGAVARAM PORT LIMITED

NOTICE:

THIS DRAWING HAS NOT BEEN PUBLISHED AND IS THE SOLE PROPERTY OF GANGAVARAM PORT LIMITED (GPL) AND IS ISSUED TO THE PARTY FOR THE SPECIFIC PURPOSE AS STATED IN THE AGREEMENT AND IT SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, LENT OR OTHERWISE DISPOSED OF DIRECTLY OR INDIRECTLY, NOR USED FOR ANY OTHER PURPOSE OTHER THAN FOR WHICH IT IS FURNISHED.

For GANGAVARAM PORT LIMITED
Rev. For GANGAVARAM PORT LIMITED
1000
GANGAVARAM